



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2461]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2010/अग्रहायण 15, 1932

No. 2461]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2010/AGRAHAYANA 15, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2010

**का.आ. 2899(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 के 135.800 कि.मी. से 166.400 कि.मी. तक के भू-खण्ड (बाइपासों सहित) (त्रिची-करुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलकट्टी, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 135/800 कि.मी. से 166/400 कि.मी. तक (बाइपास सहित) (त्रिची-करूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	वार्ड/ ब्लॉक संख्या	सर्वेक्षण/ उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुचिरापल्ली	श्री रंगम	(1) पिरट्टीयूर पश्चिम	एएम/29	8/1 (टीएस)	रैयतवारी	शुष्क	107.00
					8/2 (टीएस)	सरकारी	पोरमबोक	469.00
					9 (टीएस)	सरकारी	पोरमबोक	80.00
					10/5 (टीएस)	रैयतवारी	नम	74.00
			(2) कुलूमनी		132/6	रैयतवारी	नम	179.00
					133/1	सरकारी	पोरमपोक	120.00
					133/8	रैयतवारी	नम	517.00
					133/9	रैयतवारी	नम	803.00
					135/5	रैयतवारी	नम	845.00
					135/6	रैयतवारी	नम	863.00
					136/12	रैयतवारी	नम	429.00
					136/13	रैयतवारी	नम	252.00
					136/16	सरकारी	पोरमपोक	136.00
					139	सरकारी	पोरमपोक	82.00
					179/1बी	रैयतवारी	नम	284.00
					179/2ए	रैयतवारी	नम	111.00
					179/2बी	रैयतवारी	नम	288.00
					179/4	रैयतवारी	नम	55.00
					181/1	रैयतवारी	नम	82.00
					181/3	रैयतवारी	नम	85.00
					181/4	रैयतवारी	नम	67.00
					181/5	रैयतवारी	नम	319.00
					181/9	रैयतवारी	नम	125.00
					182/1	रैयतवारी	नम	91.00
					182/5	सरकारी	पोरमपोक	292.00
					185/3	रैयतवारी	नम	37.00
					185/4ए	रैयतवारी	नम	50.00

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	वार्ड/ ब्लॉक संख्या	सर्वेक्षण/ उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					185/4बी	रैयतवारी	नम	30.00
					185/5	रैयतवारी	नम	1184.00
					185/6	रैयतवारी	नम	22.00
					186/6	रैयतवारी	नम	85.00
					193	सरकारी	पोरमपोक	45.00
					194/1ए	रैयतवारी	नम	144.00
					194/1बी	रैयतवारी	नम	462.00
					194/3	रैयतवारी	नम	55.00
					194/5	रैयतवारी	नम	85.00
					194/6	रैयतवारी	नम	24.00
					195/3	रैयतवारी	नम	120.00
					195/4	रैयतवारी	नम	31.00
					197/1	रैयतवारी	नम	61.00
					198/1	रैयतवारी	नम	17.00
					198/2	सरकारी	पोरमपोक	208.00
					198/3ए1	रैयतवारी	नम	24.00
					198/3ए2	रैयतवारी	नम	45.00
					198/3सी	रैयतवारी	नम	61.00
					198/5ए	रैयतवारी	नम	81.00
					198/5बी	रैयतवारी	नम	6.00
					203	सरकारी	पोरमपोक	200.00
					208/2	रैयतवारी	नम	9.00
			(3) अदायत्तूर पूर्व		115/8बी	रैयतवारी	शुष्क	112.00
					115/9ए	रैयतवारी	शुष्क	114.00
					115/19बी	रैयतवारी	शुष्क	11.00
					116/11	रैयतवारी	शुष्क	10.00
					116/13	रैयतवारी	शुष्क	60.00
					116/15	रैयतवारी	शुष्क	264.00
					116/17	रैयतवारी	शुष्क	49.00
					116/20	रैयतवारी	शुष्क	681.00
					116/22	रैयतवारी	शुष्क	1.00
					116/34	रैयतवारी	शुष्क	270.00
					116/35	रैयतवारी	शुष्क	225.00
					116/36	रैयतवारी	शुष्क	315.00

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	वार्ड/ ब्लॉक संख्या	सर्वेक्षण/ उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					116/37	रैयतवारी	शुष्क	585.00
					116/38	रैयतवारी	शुष्क	315.00
					116/45	रैयतवारी	शुष्क	1.00
					117/38	रैयतवारी	शुष्क	55.00
					119/1ए	रैयतवारी	शुष्क	52.00
					119/1बी	रैयतवारी	शुष्क	6.00
					119/2बी	सरकारी	पोरमपोक	13.00
					120	सरकारी	पोरमपोक	561.00
					122/13बी	रैयतवारी	शुष्क	72.00
					122/24	रैयतवारी	शुष्क	48.00
					122/25	रैयतवारी	शुष्क	21.00
					122/29बी	रैयतवारी	शुष्क	5.00
					141/1ए1	रैयतवारी	शुष्क	75.00
					141/1बी	सरकारी	पोरमपोक	38.00
					141/1ए2	रैयतवारी	शुष्क	1209.00
					141/1सी	रैयतवारी	शुष्क	17.00
					178/1ए	रैयतवारी	शुष्क	38.00
					178/1बी	सरकारी	पोरमपोक	161.00
					178/2ए	रैयतवारी	शुष्क	179.00
					178/4ए	रैयतवारी	शुष्क	52.00
					178/5ए	रैयतवारी	शुष्क	5.00
					178/6ए	रैयतवारी	शुष्क	327.00
					178/8ए1	रैयतवारी	शुष्क	86.00
					178/8ए2	रैयतवारी	शुष्क	92.00
					179/2	सरकारी	पोरमपोक	888.00
					180/4बी	सरकारी	पोरमपोक	199.00
					180/9ए5	रैयतवारी	शुष्क	647.00
					181/1बी	सरकारी	पोरमपोक	76.00
					183/1एस	रैयतवारी	शुष्क	504.00
					184/1ई	रैयतवारी	शुष्क	81.00
					184/1एफ	रैयतवारी	शुष्क	117.00
					187/2	रैयतवारी	शुष्क	395.00
					187/4	रैयतवारी	शुष्क	152.00
					187/5	रैयतवारी	शुष्क	23.00
					187/6	रैयतवारी	शुष्क	44.00

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	वार्ड/ब्लॉक संख्या	सर्वेक्षण/उप विभाजन संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					190/1ए	रैयतवारी	शुष्क	737.00
					190/1सी1	रैयतवारी	शुष्क	89.00
					190/1सी2	रैयतवारी	शुष्क	42.00
					190/1सी3	रैयतवारी	शुष्क	165.00
					190/2ई1	रैयतवारी	शुष्क	58.00
					190/2ई2	रैयतवारी	शुष्क	141.00
					191/1ए	रैयतवारी	शुष्क	20.00
					191/1सी	रैयतवारी	शुष्क	19.00
					191/1ई	रैयतवारी	शुष्क	55.00

[फा. सं. भाराप्र-एच.क्यू./11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-करूर]

माया प्रकाश, उप-सचिव

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2010

**S.O. 2899(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways, Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.,) maintenance, management and operation of National Highways No. 67 on the stretch of land from Km 135.800 Km to 166.400 (including bypasses) (Trichy-Karur Section) in Tiruchirappalli District in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the District Revenue Officer, Office of the Collector and District Magistrate, Collectorate, Tiruchirappalli District, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made, by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The Land Plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of Competent Authority.

4655 97/10-2

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 135/800 to Km.166/400 (including bypasses) (Trichy- Karur Section) of the National Highway Number 67 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Ward / block number	Survey/ Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiruchirappalli	Sri Rangam	(1) Pirattiyur West	AM/29	8/1 (TS)	Ryotwari	Dry	107.00
					8/2 (TS)	Government	Poramboke	469.00
					9 (TS)	Government	Poramboke	80.00
					10/5 (TS)	Ryotwari	Wet	74.00
			(2) Kulumani		132/6	Ryotwari	Wet	179.00
					133/1	Government	Porampoke	120.00
					133/8	Ryotwari	Wet	517.00
					133/9	Ryotwari	Wet	803.00
					135/5	Ryotwari	Wet	845.00
					135/6	Ryotwari	Wet	863.00
					136/12	Ryotwari	Wet	429.00
					136/13	Ryotwari	Wet	252.00
					136/16	Government	Porampoke	136.00
					139	Government	Porampoke	82.00
					179/1B	Ryotwari	Wet	284.00
					179/2A	Ryotwari	Wet	111.00
					179/2B	Ryotwari	Wet	288.00
					179/4	Ryotwari	Wet	55.00
					181/1	Ryotwari	Wet	82.00
					181/3	Ryotwari	Wet	85.00
					181/4	Ryotwari	Wet	67.00
					181/5	Ryotwari	Wet	319.00
					181/9	Ryotwari	Wet	125.00
					182/1	Ryotwari	Wet	91.00
					182/5	Government	Porampoke	292.00
					185/3	Ryotwari	Wet	37.00
					185/4A	Ryotwari	Wet	50.00
					185/4B	Ryotwari	Wet	30.00

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Ward / block number	Survey/ Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					185/5	Ryotwari	Wet	1184.00
					185/6	Ryotwari	Wet	22.00
					186/6	Ryotwari	Wet	85.00
					193	Government	Porampoke	45.00
					194/1A	Ryotwari	Wet	144.00
					194/1B	Ryotwari	Wet	462.00
					194/3	Ryotwari	Wet	55.00
					194/5	Ryotwari	Wet	85.00
					194/6	Ryotwari	Wet	24.00
					195/3	Ryotwari	Wet	120.00
					195/4	Ryotwari	Wet	31.00
					197/1	Ryotwari	Wet	61.00
					198/1	Ryotwari	Wet	17.00
					198/2	Government	Porampoke	208.00
					198/3A1	Ryotwari	Wet	24.00
					198/3A2	Ryotwari	Wet	45.00
					198/3C	Ryotwari	Wet	61.00
					198/5A	Ryotwari	Wet	81.00
					198/5B	Ryotwari	Wet	6.00
					203	Government	Porampoke	200.00
					208/2	Ryotwari	Wet	9.00
			(3) Adavattur East		115/8B	Ryotwari	Dry	112.00
					115/9A	Ryotwari	Dry	114.00
					115/19B	Ryotwari	Dry	11.00
					116/11	Ryotwari	Dry	10.00
					116/13	Ryotwari	Dry	60.00
					116/15	Ryotwari	Dry	264.00
					116/17	Ryotwari	Dry	49.00
					116/20	Ryotwari	Dry	681.00
					116/22	Ryotwari	Dry	1.00
					116/34	Ryotwari	Dry	270.00
					116/35	Ryotwari	Dry	225.00
					116/36	Ryotwari	Dry	315.00
					116/37	Ryotwari	Dry	585.00

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Ward / block number	Survey/ Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					116/38	Ryotwari	Dry	315.00
					116/45	Ryotwari	Dry	1.00
					117/38	Ryotwari	Dry	55.00
					119/1A	Ryotwari	Dry	52.00
					119/1B	Ryotwari	Dry	6.00
					119/2B	Government	Porampoke	13.00
					120	Government	Porampoke	561.00
					122/13B	Ryotwari	Dry	72.00
					122/24	Ryotwari	Dry	48.00
					122/25	Ryotwari	Dry	21.00
					122/29B	Ryotwari	Dry	5.00
					141/1A1	Ryotwari	Dry	75.00
					141/1B	Government	Porampoke	38.00
					141/1A2	Ryotwari	Dry	1209.00
					141/1C	Ryotwari	Dry	17.00
					178/1A	Ryotwari	Dry	38.00
					178/1B	Government	Porampoke	161.00
					178/2A	Ryotwari	Dry	179.00
					178/4A	Ryotwari	Dry	52.00
					178/5A	Ryotwari	Dry	5.00
					178/6A	Ryotwari	Dry	327.00
					178/8A1	Ryotwari	Dry	86.00
					178/8A2	Ryotwari	Dry	92.00
					179/2	Government	Porampoke	888.00
					180/4B	Government	Porampoke	199.00
					180/9A5	Ryotwari	Dry	647.00
					181/1B	Government	Porampoke	76.00
					183/1S	Ryotwari	Dry	504.00
					184/1E	Ryotwari	Dry	81.00
					184/1F	Ryotwari	Dry	117.00
					187/2	Ryotwari	Dry	395.00
					187/4	Ryotwari	Dry	152.00
					187/5	Ryotwari	Dry	23.00
					187/6	Ryotwari	Dry	44.00
					190/1A	Ryotwari	Dry	737.00
					190/1C1	Ryotwari	Dry	89.00



Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Ward / block number	Survey/ Sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					190/1C2	Ryotwari	Dry	42.00
					190/1C3	Ryotwari	Dry	165.00
					190/2E1	Ryotwari	Dry	58.00
					190/2E2	Ryotwari	Dry	141.00
					191/1A	Ryotwari	Dry	20.00
					191/1C	Ryotwari	Dry	19.00
					191/1E	Ryotwari	Dry	55.00

[F. No. NHAI-H.Q./11013/2010/LA/Notif./PIU-Karur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

4655 45710 -3